

May 28, 2022

To, Department of Corporate Relations BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street Mumbai-400 001

Dear Sir,

Sub.: Newspaper advertisement of audited financial results approved in the board meeting held on Thursday, 26th day of May, 2022 for the quarter and year ended March 31, 2022.

ISIN: INE855P01033

With reference to the regulation 47 and other applicable regulations, if any of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of audited financial results approved in the board meeting held on **Thursday, 26th day of May, 2022** for the quarter and year ended March 31, 2022 published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial Express" and Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on Saturday, May 28, 2022.

Please find enclosed the copy of the same.

Thanking You, Yours truly

For Quasar India Limited

Harish Kumar

Director DIN: 02591868

Encl: Copy of Newspaper Advertisement

FINANCIAL EXPRESS

MOHIT INDUSTRIES LIMITED

(CIN NO. L17119GJ1991PLC015074)

REGD. OFF.: A- 601-B. INTERNATIONAL TRADE CENTRE, MAJURA GATE, RING ROAD, SURAT - 395002, GUJARAT INDIA Ph: +91-261-2463261 / 62 / 63 Fax: +91-261-2463264 Email : contact@mohitindustries.com, website : www.mohitindustries.com EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

		Color State State	A State of the		(1	Rs. in Lakhs)
		STAND	ALONE	8	CONSO	LIDATED
PARTICULARS	Quarter Ended 31/03/2022	Quarter Ended 31/03/2021	Year Ended 31/03/2022	Year Ended 31/03/2021	Year Ended 31/03/2022	Year Ended 31/03/2021
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income from Operations	4,006.36	5,518.50	16,986.16	15,119.88	16,986.16	15,119.88
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	25.89	251.68	35.42	93.90	35.42	93.92
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	25.89	261.68	36.23	103.90	36.23	103.92
Net profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	20.90	215.21	28.47	67.74	28.47	67.74
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	547.91	213.58	598.10	86.59	8,449.34	2,021.35
Paid up Equity Share Capital		5 93	(35 - 5	1415.76
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet		Seco (2,163.68	1,565.59	12,389.60	3,940.28
Earning Per Share (Face value of Rs.10/- each) (for continuing an	nd discontinu	ed operation	ns) -			
(a) Basic (in Rs.) :	0,15	1.51	0.20	0,48	0.09	0.49
(b) Diluted (in Rs.) :	0.15	1.51	0.20	0.48	0.09	0.49
Note :	02 0	10		(12	

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on May 27, 2022.

2. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for year ended 31st March, 2022 filed with stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results is available on the Stock Exchange website i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website i.e www.mohitindustries.com.

For MOHIT INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

Place : Surat Date : 27/05/2022

NARAYAN SABOO MANAGING DIRECTOR



(formerly known as FSN E-Commerce Ventures Private Limited)

CIN: U52600MH2012PLC230136

Regd.Office: 104, Vasan Udyog Bhavan, Sun Mill compound, Tulsi Pipe Road, Lower Parel, Mumbai - 400013. Email id- investor-relation@nykaa.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31ST, 2022

(Rs in Million, unless otherwise stated)

		the second s	the second s
	Quarter ended	Quarter ended	Year Ended
S-	March 31st,	March 31st,	March 31st,



Sun TV Network Limited

Regd. Office: Murasoli Maran Towers, 73, MRC Nagar Main Road, MRC Nagar, Chennai - 600 028 CIN: L22110TN1985PLC012491 Email: tvinfo@sunnetwork.in: www.suntv.in Phone No. 044-44676767 Fax No. 044-40676161

Extract of consolidated financial results for the guarter and year ended March 31, 2022

		53	Quarter Endec	i i	Year E	nded
SI.	PARTICULARS	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
No.		Audited Refer Note - 4	Unaudited	Audited Refer Note - 4	Audited	Audited
1	Income from Operations (net)	856.85	1,060.43	802.55	3,584.82	3,176.89
2	Net Profit before tax	550.35	623.15	543.38	2,195.37	1,941.02
3	Net Profit after tax	410.17	471.19	487.86	1,641.91	1,525.24
4	Total Comprehensive income	412.23	471.02	489.24	1,643.47	1,526.85
5	Equity share capital (Face value of Rs.5.00 /- each)	197.04	197.04	197.04	197.04	197.04
6	Reserves excluding revaluation reserves (i.e. Other Equity)				7,958.16	6,856.67
7	Earnings Per Share (Face value of Rs.5.00 /- each)	10003	1000	905505	0.0421	07-26
	Basic and Diluted - in Rs.	10.41	11.96	12.38	41.66	38.70
			Not annualise	d		

Notes :

Place : Chennai

Date : May 27, 2022

1. Additional information on standalone financial results for the guarter and year ended March 31, 2022

			Quarter Ended				
SI.	PARTICULARS	March 31, De 2022		March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021	
No.		Audited Refer Note - 4	Unaudited	Audited Refer Note - 4	Audited	Audited	
1	Income from Operations (net)	833.01	1,033.10	781.99	3,504.88	3,116.59	
2	Net Profit before tax	538.82	609.80	503.58	2,193.14	1,934.81	
3	Net Profit after tax	404.35	457.39	449.88	1,644.80	1,520.41	
4	Total Comprehensive income	406.20	457.20	451.86	1,646.09	1,521.94	

2. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said financial results are available in the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.suntv.in, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

3. The outbreak of COVID -19 pandemic and consequent lock down has impacted the regular business operations of the Group. The results for the guarter and year ended March 31, 2022 are therefore not comparable with those for the earlier periods presented. The Group has assessed the impact of the pandemic on its financial results / position based on the internal and external information, to the extent known and available up to the date of approval of these financial results and based on the current estimates, the Group expects no further adjustments to the carrying amounts as at March 31, 2022 of the investments, intangible assets, receivables and other financial assets. This assessment and the outcome of the pandemic as regards the aforesaid matters is highly dependent on the circumstances / developments, as they evolve in the subsequent periods.

The figures for the quarters ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures for the years 4 ended March 31, 2022 and March 31, 2021 and the unaudited year-to-date figures for the nine months ended December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively, which were subject to limited review by the Statutory Auditors.

For and on behalf of the Board of Directors Sd/ R. Mahesh Kumar Managing Director

(A member of the Amalgamations Group) IP Rings Ltd. Regd. Office : D-11/12, Industrial Estate, Maraimalai Nagar - 603 209. Phone : 044 - 27452816, email : investor@iprings.com Website : www.iprings.com

Sr. No.	Particulars	2022	2021	2022
NO.		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income	9,844.59	7,449.16	38,009.07
2	Profit before tax	58.16	204.16	473.06
3	Profit after tax	75.79	179.06	412.88
4	Total Comprehensive Income	78.28	160.40	418.44
5	Paid-up equity share capital	474.11	150.57	474.11
	Face value (In Rs.) (Refer Note 3)	1.00	10.00	1.00
6	Other Equity as shown in the Audited Balance sheet of previous year			4,748.39
7	Earnings per equity share of face value of Re. 1/- each (not annualised)			-2
	Basic (In Rs)	0.18	0.38	0.88
1	Diluted (In Rs)	0.18	0.36	0.87
		10 KOOMACOMOL		

Notes:

- 1 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on company's website (www.nykaa.com)
- Financial results of FSN E-Commerce Ventures Limited (formerly known as FSN E-Commerce Ventures Private Limited) standalone: (Rs in Million)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended March 31st, 2022	Quarter ended March 31st, 2021	Year Ended March 31st, 2022 (Audited)	
NO.		(Audited)	(Unaudited)		
1	Total Income	1,019.06	516.88	3,034.06	
2	Profit before tax	519.33	43.21	1,216.92	
3	Profit after tax	486.56	29.25	1,035.13	

3 Pursuant to the approval of the shareholders in their meeting held on July 16, 2021, the Company, on July 22, 2021, sub-divided one equity share of face value of Rs. 10 each into ten equity shares of face value of Re. 1 each and allotted 311,357,900 ordinary shares of face value of Re. 1 each as fully paid up bonus shares in proportion of two bonus shares for every one existing fully paid up equity share of face value of Re. 1 each held as on the Record Date i.e. July 15, 2021.

- The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on 4 record by the Board of Directors at its meeting held on May 27, 2022.
- The review/audit as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed by the statutory auditors of the company except financial results for the three months ended March 31, 2021 which have not been subjected to limited review or audit.

For and on Behalf of Board of Directors of FSN E-Commerce Ventures Limited (formerly known as FSN E-Commerce Ventures Private Limited)

Place: Mumbai Date: May 27, 2022

Falguni Nayar Executive Chairperson, CEO & Managing Director

MRO-TEK REALTY LIMITED

QUASAR INDIA LIMITED

CIN: L67190DL1979PLC009555 Regd. Off.: 305, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, Delhi-110085 Mob:+91 9625304043 | Email: guasarindia123@gmail.com | Website: www.guasarindia.in

Extracts of the Standalone Audited Financial Results For the Quarter and year ended March 31, 2022 (Rs. in Lakh)

CIN: L28920TN1991PLC020232

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

		STANDALONE					CONSOLIDATED		
SI. No.		Qu	arter Ende	d	Year	Ended	Quarter	Ended	Year Ended
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022
110.		Refer Note 6	Unaudited	Refer Note 6	Audited	Audited	Refer Note 7	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	7,325.05	7,247.84	7,639.01	27,500.84	19,946.01	7,325.05	7,247.84	27,500.84
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	421.43	64.33	547.77	1,105.03	654.01	421.43	64.33	1,105.03
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	421.43	64.33	547.77	1,105.03	654.01	429.11	54.78	1,103.16
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	343.89	44.20	408.65	821.48	496.81	351.57	34.65	819.61
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	399.83	30.54	362.80	836.23	434.22	407.51	20.99	834.36
6	Paid up Equity Share Capital	1,267.59	1,267.59	1,267.59	1,267.59	1,267.59	1,267.59	1,267.59	1,267.59
7	Other Equity	1.5	-	-	9,917.80	9,271.71			9,915.93
8	Earnings Per Share of Rs.10/- each (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	2.71	0.35 0.35			3.92 3.92		0.27	6.47 6.47

Notes:

1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 27. 2022. The information for the year ended March 31, 2022 and March 31, 2021 presented above is extracted from the audited financial statements for the year ended March 31, 2022. These financial statements are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (INDAS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.

- 2. The Board of Directors of the Company, being the Chief Operating Decision Maker ('CODM'), based on the internal business reporting system, identified that the Company has only one segment viz. manufacture and sale of Auto Component - Piston Rings, Differential Gears, Pole Wheel and other transmission Components. Accordingly there are no other reportable segments in terms of IndAS 108 'Operating Segments'.
- 3. The outbreak of Coronavirus (Covid-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. In such a situation, the Company has taken due care in concluding on accounting judgements and estimates; viz., in relation to recoverability of receivables, assessment of impairment of assets and inventory, based on the internal and external information available up to the date of approval of these financial results and expects to recover the carrying value of its assets. The actual impact of the global health pandemic may be different from that which has been estimated, as the COVID-19 situation evolves in India and globally. The Company continues to monitor the economic effects of the pandemic on the operations and take appropriate actions as and when required.
- 4. The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Company will assess the impact and its evaluation once the subject rules are notified and will give appropriate impact in its financial results in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact are published.
- 5. The Board of Directors have recommended a payment of dividend of Rs.2/- per equity share (on equity share of face value of Rs.10 each) for the year ended March 31, 2022. The payment is subject to the approval of the shareholder at the ensuring Annual General Meeting.
- 6. The figures for the guarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the guarter ended December 31, 2021 and December 31, 2020 respectively, which were subject to limited review by the statutory auditors.
- 7. The figures for the guarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the guarter ended December 31, 2021, which were subject to limited review by the statutory auditors.

for IP Rings Ltd.

Place : Chennai Date : May 27, 2022 A. Venkataramani Managing Director



SI No.	Particulars	Quarter Ended	Figures	3 Months Ended in the previous year
		31/03/2022 (Audited)	31/03/2022 (Audited)	31/03/2021 (Audited)
1.	Total income from operations	131.02	506.17	348.22
	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	16.63	(20.16)	(40.77)
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.63	(20.16)	(40.77)
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period	18.57	(18.22)	(26.02)
6.	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital	18.57 535.25	(18.22) 535.25	(26.02) 535.25
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	16.47	16.47	17.76
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
20000	1. Basic : 2. Diluted :	0.35 0.35	(0.34) (0.34)	(0.49) (0.49)

1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the Website of the Company i.e (www.guasarindia.in) and website of the stock Exchange(s) (www.bse-india.com) .

2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 26th may, 2022.

3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act ,2013 read with Ind -as rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors **Quasar India Limited**

	Sd/-
Date: 26.05.2022	Harish Kumar (Director)
Place: New Delhi	DIN: 02591868

(formerly known as "MRO-TEK LIMITED") Regd Office: No.6, 'Maruthi Complex', New BEL Road, Chikkamaranahalli, Bengaluru-560 054 CIN NO.L28112KA1984PLC005873 Phone : 080-42499000 Website: www.mro-tek.com

STATEMENT OF AUDITED RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(₹ in Lakhs except for EPS)

~					Year Ended		
SI. No.	Particulars		31/Mar/2022 Audited	31/Dec/2021 Un-Audited	31/Mar/2021 Audited	Year 8 31/Mar/2022 Audited 12,363.29 8,084.43 8,084.43 7,868.80 7,868.80 7,862.70 934.23 6,023.72 42.11 42.11	31/Mar/2021 Audited
1	Total income from operations		697.18	880.73	1,033.69	12,363.29	3,259.85
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary Ite	ems	(145.69)	(150.30)	(99.10)	8,084.43	(715.82)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, but after Exceptional and Extraol	dinary Items	(145.69)	(150.30)	(99.10)	8,084.43	(715.82)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinar	y Items	(145.31)	(172.63)	(117.84)	7,868.80	(746.39
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the and Other Comprehensive Income (after tax)	period (after tax)	(143.73)	(175.33)	(116.90)	7,862.70	(746.84
6	Equity Share Capital		934.23	934.23	934.23	934.23	934.23
7	Other Equity		6,023.72	6,167.45	(1,838.98)	6,023.72	(1,838.98
8	Earnings Per Share (of ₹ 5/-each) for Continuing and discontinued Operation 1. Basic : 2. Diluted:	is ₹	(0.78) (0.78)	(0.92) (0.92)	(0.63) (0.63)		(3.99) (3.99)

NOTES :-

Sd/

- 1 These results have been prepared in accordance with the IND AS (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on May 26, 2022
- 2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and the website of the company, "www.mro-tek.com". By Order of the Board,
- 3 Figures for the earlier period have been re-grouped wherever necessary.
- Place : Bengaluru

Date : 26" May 2022











for MRO-TEK REALTY LIMITED Sd/-Aniruddha Mehta

Chairman and Managing Director

	स्टर्ड ऑफिस: त्रिशूल, र एलिसब्रिज,				
सर फोसी आ जबकि अवांहाताशरकतो एंकिस्स केंक लिपिटेड का प्रापि पुरुषांटन और प्रतिभूति हित प्रकॉन अधिनियम 2003 की प्रा करते हुए यांग सुख्या पत्र की प्रापित दिनोंक से 60 दिन के 1 होने पर क्षणी की विजित्यापा और सर्वसाधारण की साथा स्वरित उका नियमों के नियम 8 के तहन उसकी प्रदेश शांक लिया है। काणी की विजित्या और सर्वसाधारण की प्रायान राजवार गर्जन्मम केंत जिन्दित के प्रथान के अध्यान होगा	गो 13(12) मथदित प्रतिभूति हित्र (वीतर नोटिम वे वर्णित राजि लोटाने त वतथा एतद् द्वारा पुलित किवा वाता यों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वी स्टबा एतद्वारा प्रेयत्ति के साथ व्यवह	त्यां के अनुप्रयोग प्रवतंग) कियम 9 के लिये निर्गाधिक है है कि अधोहम्ताक है कि अधोहम्ताक ति सम्पत्तिका अ	में किलीम आहि को अंतर्गत किल केवा। सत्वी के सकती ने उबत उ हथिपहच किल्लीन	लिखित ऋणीचों को मांगगी हुला राजि लीटाने में विफल राधितिषय की थाएा 13(4) चित्रत दिनांकों को प्रारण कर	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड (मारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) पो.ऑ. आरबीएनएमएल, शालबनी–721132, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल दूरमाष : 03227-280176/280317; फैक्स: 03227-280744/280222
रूखाः एक्सम बकालम्बर इक प्रयोग क अलगागडागा ऋणी/सहऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना	कव्वं	मांग सूचना में बकाया	रवुली निविदा पूछताछ (ओटीई)/राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (एनसीबी) दो भाग बोली प्रणाली के तहत निम्नलिखित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. –
क्षी भंबर लाल पुत्र केसा राम (आवेदक)	फ्नॉट नंबर 211-212,	की दिनांक	कव्व को दिनांक	राशि (रू. में)	이렇게 회가 밖에 있는 것을 많이 있는 것을 가지 않는 것을 많이 있는 것을 가지 않는 것을 많이 있다. 이렇게 나는 것을 많이
श्रीमती लोत्या पत्नि भंवर लाल (सइ-आवेदक∕ वंधककर्ता)	चक नं. 2 खसरा नं. 384, मधुबन नगर पाली राजस्थान 306401	16.02.2022	23,05,2022	. स्त. 14,27,050/- + ब्याज एवं लागतें	 शालबनी ब्लॉक के विद्यालयों में विद्यालय भवनों एवं बाई—साइकिल शेडों का निर्माण, निविदा सं. 02/साल/सीएसआर/2022–23 [अनुमानित लागत— ₹ 438.30 लाख] उपरोक्त सभी निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि 28.06.2022 को 11:30 बजे तक है।
सारांच्या वर्णित ऋणी/सह-काणी/जसामतदार को 30 दिवस होने पर बंधक सम्पत्ति प्रतिभूति हित प्रकॉन निषम 2002 के समय के संदर्भ में काणी का व्यान अधिनिषम की वारा 13 की र दिनांक: 28.05.2022 स्थान:राजस्थान	नेयन 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार न	रेव से जाएते । " ए किया जाता है (प्रसिद्धन भवस्तिव		निविदा दस्तावेजों और अन्य विवरणों को डाउनलोड करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट <u>www.brbnmpl.co.in</u> पर जाएं। आगे विस्तार या संशोधनों के लिए यदि कोई हो, केवल हमारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मन्द्रा प्रबंध क

Lemon Tree Hotels Limited

(CIN:L74899DL1992PLC049022) Regd. Off.: Asset No. 6, Aerocity Hospitality District New Delhi -110037 | Tel.: +91-11-4605 0101 Fax: +91-11-4605 0110 | Email: sectdeptt@lemontreehotels.com www.lemontreehotels.com



EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (₹ In Lakhs, except per share data)

		Quarter ended	Year ended		
Particulars	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	12,716.54	14,600.64	9,697.30	41,627.00	26,497.92
Loss before tax	(3,942.90)	(321.27)	(4,087.64)	(14,459.23)	(21,874.42)
Net Loss after taxes and Non-controlling interest	(2,462.13)	(187.34)	(1,681.68)	(8,743.39)	(12,706.82)
Total comprehensive loss for the year /period after Non- controlling interest	(2,437.01)	(186.99)	(1,695.73)	(8,717.21)	(12,718.58)
Paid-up equity share capital (face value ₹10 per share)	79,081.33	79,061.69	79,042.14	79,081.33	79,042.14
Other equity (including Non-controlling interest)				60,806.55	74,454.69
Earning per share (of ₹ 10 each) (EPS for the quarter not annualised)					
(A) Basic	(0.31)	(0.02)	(0.21)	(1.11)	(1.61)
(B) Diluted	(0.31)	(0.02)	(0.21)	(1.11)	(1.61)

Notes:

1. The results for the quarter are not indicative of a full year's working due to the seasonal nature of the Indian Hotel Industry.

2. The consolidated results has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 26, 2022 and May 27, 2022.

3. Key standalone Financial Results Information:

www.readwhere.com

					(₹ In Lakhs	
		Year ended				
Particulars	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021 (Audited)	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
Total Income	3,918.40	4,664.12	3,071.49	13,217.41	8,394.44	
Profit /(Loss) before tax	(367.24)	389.11	(1,493.72)	(2,260.76)	(5,386.74)	

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड (भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) पो.ऑ. आरबीएनएमएल, शालबनी–721132, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष, **नई दिल्ली बेंच** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (3) और के नियम 6 और 7 के अनुसार कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 दरभाषः : 03227-280176 / 280317; फैक्स: 03227-280744 / 280222 2022 का कंपनी आवेदन संख्या 09 ी निविदा पूछताछ (ओटीई)/राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (एनसीबी) सी.ए. (सीएए) - 09/एनडी/2022 ोली प्रणाली के तहत निम्नलिखित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: — के मामले में: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधान कंपनी (समझौता, व्यवस्था बनी ब्लॉक के विद्यालयों में विद्यालय भवनों एवं बाई—साइकिल शेडों का निर्माण, निविदा सं. साल / सीएसआर / 2022–23 [अनुमानित लागत– ₹ 438.30 लाख] तभी निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि 28.06.2022 को 11:30 बजे तक है |

प्रति.

और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 15 के साथ पठित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियम, 2016 के नियम 11, 23 और 34 के साथ भी पढ़े जाते हैं। तथा

एसीएल मोबाइल लिमिटेड ("ट्रांसफर कंपनी 1"), आवेदक नंबर 1, एसीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रांसफर कंपनी 2"), आवेदक नंबर 2 और सिंच क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेंट लिमिटेड ("टांसफर कंपनी") के बीच समामेलन की योजना और उनके संबंधित शेयरधारक।

तथा एसीएल मोबाइल लिमिटेड सीआईएन: U0000DL2000PLC105516, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 104-107, हेमकुंट टॉवर 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 (**आवेदक संख्या 1 / टांसफरर कंपनी 1**) है। तथा

एसीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड CIN: U72900DL2000PTC105180, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 104-107 हेमकुंट टॉवर 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 (आवेदक संख्या 2 / ट्रांसफरर कंपनी 2) में है।

ट्रिव्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक के लिए सूचना एसीएल मोबाइल लिमिटेड के असुरक्षित लेनदार

एसीएल मोबाइल लिमिटेड के असुरक्षित लेनदार (आवेदक संख्या 1 / अंतरणकर्ता कंपनी 1) एतद्ववारा सूचना दी जाती है कि 19 मई 2022 (इसके बाद आदेश के रूप में संदर्भित) के एक आदेश द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (इसके बाद ट्रिब्यूनल के रूप में संदर्भित) की माननीय नई दिल्ली बेंच, उपरोक्त कंपनी आवेदन संख्या 09 में 2022, ने निर्देश दिया है कि आवेदक नंबर 1 के असुरक्षित लेनदारों की बैठक विचार करने के उद्देश्य से आयोजित की जाए, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एसीएल मोबाइल लिमिटेड, एसीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट के बीच समामेलन की प्रस्तावित योजना पर विचार किया जाए। लिमिटेड और सिंच क्लाउड कम्पुनिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उपरोक्त कंपनियों के संबंधित शेयरधारक, जो अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 230-232 के तहत ट्रांसफरी कंपनी को आवेदक नंबर 1 और आवेदक नंबर 2 के उपक्रम के हस्तांतरण के लिए प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 (बाद में योजना के रूप में संदर्भित)।

उक्त आदेश के अनुसरण में तथा उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार एतद्ववारा आगे नोटिस दिया जाता है कि आवेदक संख्या 1 के असुरक्षित लेनदारों की बैठक आवेदक संख्या 1 के पंजीकृत कार्यालय 104-107 हेमकुंट टावर 98 पर आयोजित की जाएगी। नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 गुरुवार, 30 जून 2022 को सुबह 10:00 बजे (इसके बाद ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक के रूप में संदर्भित), जिस समय और तारीख को असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध किया जाता है कि वे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से उक्त ट्रिब्यूनल बुलाई गई बैठँक में भाग लें। असुरक्षित लेनदार निम्नलिखित हाइपरलिंक का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले सकते हैं:

बैठक में शामिल होने के लिए कृपया नीचे दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करें:

मीटिंग में शामिल होने के लिए यहां क्लिक करें

वैकल्पिक रूप से: मीटिंग में शामिल होने के लिए कृपया नीचे दिए गए पते को वेब-ब्राउज़र में कॉपी और पेस्ट करें:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5YjFIZjUtN Tk1NS00MDFILTk3YTUtYzMzNDZhMmUyMTdi%40thread.v2/0?context=%7b% 22Tid%22%3a%223b518aae-8921-4a7b-8497-619d756ce20e%22%2c%220id %22%3a% 22fec0b522-3ae0-48ba-9fcd-9c7bbb0d23d8%22%7d

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के साथ पठित धारा 230-232 के तहत उक्त योजना और व्याख्यात्मक विवरण और अन्य अनुलग्नकों की प्रतियां आवेदक संख्या 1 के पंजीकृत कार्यालय 104-107, हेमकुंट टॉवर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019, पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है, या आवेदक संख्या 1 के कॉर्पोरेट कार्यालय में 5वीं मंजिल, टॉवर-4, एक्सप्रेस ट्रेड टावर्स-2, बी-36, सेक्टर-132, नोएडा-201301 में किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक की तिथि तक निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक

में भाग लेने और मतदान करने के हकदार व्यक्ति, इस बैठक के दौरान, व्यक्तिगत रूप से



AMRIT CORP. LIMITED Regd. Office: CM-28 (First Floor), Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T.Road, Ghaziabad – 201 009 (UP) Website: www.amritcorp.com, E-mail: info@amritcorp.com, Tel.: 0120-4506900, Fax: 0120-4506910 CIN: L15141UP1940PLC000946

NOTICE

	HOHEE
is schedule Conference dated Apri December by the Min Exchange I As per afor 2022 has 1 already re- e-voting a If your em along with to your reg Company/ obtaining	tereby given that the 81st Annual General Meeting (AGM) of the Company ed to be held on 29th June, 2022, Wednesday at 11.00 a.m. through Video e or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular I 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, 14, 2021 and May 05, 2022 and all other applicable laws and circulars issued histry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Board of India (SEBI), to transact the businesses as set out in the Notice. resaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2021- to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are gistered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing nd remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. hail ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM annual report for FY 2021-2022 and login details for e-voting shall be sent gistered email address. In case you have not registered your email ID with the Depositary, please follow below instructions to register your email ID for annual report for FY 2021-2022 and login details for e-voting.
Physical Holding	Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited at investor@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e.
	MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 100020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.) to facilitate payment of dividend. PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 21st June, 2022.
Demat Holding	Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company. PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 21st June, 2022.
pany's wel at <u>www.b</u> e	of AGM and Annual Report for FY 2021-2022 will also be available on Com- osite at www.amritcorp.com and also on the Stock Exchanges websites seindia.com . Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be or the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
Place: Gha Date: May	for Amrit Corp. Ltd. Sd/- (P. K. Das) 27, 2022 Company Secretary & Compliance Officer
पंजी	कुआसर इंडिया लिमिटेड CIN: L67190DL1979PLC009555 कार्यालय : 305, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085
	मो. : +91 9625304043, ई-मेल : quasarindia123@gmail.com वेबसाईट : www.quasarindia.in
31 माच, 20	022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु स्टेण्डएलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (क्रूजिय)
	(रु. लाख में)

				(रु. लाख म
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.3.2022 (लेखापरीक्षित)	वर्ष तक के आंकड़े 31/03/2022 (लेखापरीक्षित)	गत वर्ष में समाप संगत 3 माह 31/03/2021 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	131.02	506.17	348.22
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)			
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	16.63	(20.16)	(40.77)
4.		16.63	(20.16)	(40.77)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (हानि) [अवधि (क पश्चात) हेतु लाभ तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	18.57	(18.22)	(26.02)

Net Profit (Loss) before	a tay			24) 30 02) 27				(5,386.74)		न्त प्रतिनिधि के माध्यम से, निर्दिष्ट ईमेल आईडी	से निर्मित)]]	
		or the user	(263.0					(4,073.07)	mail.arorashivani@gmail.com पर लि	खकर मतदान कर सकते हैं। एक प्रति के साथ ईमेल ने वोट के साथ, या प्रॉक्सी द्वारा, बर्श्तते कि निर्धारित	 इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षितियाँ (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तूलनपत्र में प्रदर्शि 	18.57 (18.22) 535.25 535.25	
Total comprehensive in	and a second second second second	and the second second	(255.9	2.000 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CONTRACT N		(4,076.40)	फॉर्म में सभी प्रॉक्सी आवेदक नंबर 1 के पंजी	कृत कार्यालय 104-107, हेमकुंट टॉवर 98, नेहरू	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) 8. आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 10/- का) (सतत ए		
 The above is an extract (Listing Obligations and I) 									प्लेस, नई दिल्ली 110019 में जमा किए जा स	कते हैं या आवेदक संख्या 1 का कॉर्पोरेट कार्यालय,	असतत प्रचालनों हेतु) –	0.35 (0-34)) (0.49)
(Listing Obligations and I exchanges websites, ww									5वा माजल, टावर-4, एक्सप्रस टूड टावस-2, व बैठक बुलाये जाने से 48 घंटे पहले तक जमा कि	बी-36, सेक्टर-132, नोएडा-201301, ट्रिब्यूनल की गण्जा सकते हैं।	1. बेसिक 2. डाइल्युटेड	0.35 (0-34)) (0.49)
excitatiges websites, with	Manson allocation	and mm.00	somala.com		inpany a we	0010 10000		r of the Board	ट्रिब्यूनल ने श्री अमित सेन, अधिवक्ता, पी/47	5/97 को नियुक्त किया है और उनकी अनुपस्थिति	टिप्पणी :		0
						for Ler		otels Limited	में सभी तसंधरा अधितक्ता पीएच/385/202	। उक्त टिब्यनल दारा बलाई गई बैठक की अध्यक्ष	1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपे	क्षाएँ) विनियम, 2015 के विनि	नेयम 33 के तहत स्टाक
								Sd/-	होंगी। उपयुक्त योजना, यदि ट्रिब्यूनल द्वारा बुर के अन्यपेटन और आरेण के अधीन होगी।	ताई गई बैठक में अनुमोदित हो, तो ट्रिब्यूनल के बाद	एक्सचेंज के साथ दर्ज लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के वि वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट उ		
						100000000000		i G. Keswani	विनांक 28 मई 2022, नई दिल्ली		वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।	ñ	
Place: New Delhi						(Chairr		ging Director)	पंजीकृत कार्यालयः	हस्ता/	2. उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा व	की गयी तथा 26 मई, 2022 को	आयोजित निदेशक मंडल
Date : May 27, 2022							Di	IN: 00002974	एसीएल मोबाइल लिमिटेड	श्री अमित सेनू, अध्विक्ता	की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया। 3. उपर्युक्त परिणाम इंड-एएस नियमों (यथा संशोधित)	के साथ पठित कम्पनी अधिनिय	यम. 2013 की धारा 133
23									104-107 हेमकुंट टॉवर 98,	ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक के लिए विचारन राग विपायन अपन्य	के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)	के अनुसार तैयार किये गये हैं।	
	J			STICS LI					नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019	ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष		निदेशक मंडल के लि	ये तथा उनकी ओर से ठुआसर इंडिया लिमिटेड
Regd. Of				008PLC069245								પૃગ્ત વુ	हुआसर इडिया लिम्टिड हस्ता.∕-
Regd. Of	ffice: A-1, UPSID	C Indl. Area,	, Nandgaon I	Road, Kosi Ka	ilan, Distt. M	athura (U.P.)-	-281403				तिथि : 26.5.2022	ह	इरीश कुमार (निदेशक)
							04 0000				स्थान : नई दिल्ली		DIN: 02591868
EXTRACT	OF FINANCIAL	L RESULTS F	FOR THE Q	UARTER AND) YEAR END	DED MARCH	31, 2022						
								(₹Lacs)			MANAPPURAM FINANCE LTD.	CIN-L6591 IV/470A (old) W638A(New)	0KL1992PLC006623, Manappuram House,
			Store	dalone	10		Consolidated			व्य क्ति के लिए आमंत्रण व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया)		Valapad, Thris	sur, Kerala - 680 567.
Dertieviere					and ad	Ouerter				नेयमन 36ए (1) के अंतर्गत}	निलामी	सूचना	
S. Particulars			arter Ended		ended	Quarter I		Year ended	6	गत विवरण	विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता क		
		Audited U		dited Audited				31.03.2022 31.03.2021 Audited Audited		एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड	अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वज	तनिक नीलामी निष्नलिखित	शाखाओं पर दिनांक
1 Total Income from operations		68.62	72.66	65.13 276.71	258.79 40	0,452.59 39,575	5.61 43,277.86 1	123,478.91 92,894.28		(एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक)	16.06.2022 को सुबह 10.00 बर्जे से किया जाए नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित	किए जाने के बावजुद अपने लोग	न की रकम नहीं चुकाई
2 Net Profit/ (Loss) for the period/yea	ar (before Tax and								2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि		है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नील	ामी किसी अन्य दिन बिना पुन:	सूचना दिए की जाएगी.
Exceptional items)	or bofore Terr / 1	10.59	4.03	7.69 25.59	22.82 (2	,692.66) (1,986.	.04) (3,785.19)	(12,703.51) (14,127.95)	 वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं 	भम्पना राजस्ट्रार-ादल्ला	नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.	का काइ सूचना नोलामी केन्द्र र	था वबसाइट पर लगाई
3 Net Profit/ (Loss) for the period/ ye Exceptional items)	ai beiore τax (aπer	10.59	4.03	7.69 25.59	22 82 (2	,692.66) (1.986	.04) (3.785 19)	(12,703.51) (14,127.95)	4. कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान	U74900HR2011PTC043769	गिरवियों की सूची :		
4 Net Profit/ (Loss) for the period/yea	ar after Tax (after			20.09		,, (1,000.			संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या		दिल्ली, दिल्ली, द्वारका सेक्टर 7, 113760700		
Exceptional items)		7.91	3.26	6.32 19.14	16.93 (2	,927.88) (2,138.	.57) (3,550.61)	(12,876.09) (13,542.95)		प्लॉट नं. 566, फेज V, उद्योग विहार, गुड़गाँव, हरियाण	बिञ्च्णन नक्षर, 108530730046514, रोहिणी, 8172, 100900730017415, 7481, शाल		
5 Total Comprehensive Income for t									एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) क पता	122015, भारत	8172, 100900730017415, 7481, the 8243, 8244, 102780730015379, वि		
[Comprising Profit/(Loss) for the pe and Other Comprehensive income		9.35	3.43	(3.11) 21.09	17.63 (2	,854.08) (2.131	.34) (3.645.31)	(12,711.54) (13,684.75)	 कॉपोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला 	21.12.2021 (आईआरपी को आदेश की जानकारी 30	6836, 7405, पर्व दिलली, भजनप्र	1 दिल्ली, 1220401	700059595,
6 Equity Share Capital		514.07		514.07 514.07	TOTAL CONTRACT OF A DO	514.07 514			आरंभ होने की तिथि	जनवरी, 2022 को मिली)	122040730018358, दिल शाद व 120330730014037, दिलशाद गार्डन, 12203	गलानी, 1203307	700042194,
7 Reserves (excluding Revaluation F	Reserve) as at Balance	e							7. अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की	28.05.2022	120330730014037, दिलशाद गांडन, 12203 118870700036972, 7810, गुरु अंगद नक्ष		
Sheet date 8 Earnings Per Share (of ₹ 2/- each)				31,508.04	31,486.95			(77,136.22) (62,926.45)			दिल्ली, 120840700010777, 0779, 1208	40730007138,7139), 7140, मयूर विहार
8 Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (1) Basic (₹)		0.03	0.01	0.02 0.07	0.07	(12.89) (9.	.60) (15.64)	(55.97) (58.64)	 8. संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है: 	प्रस्ताव कर्मी से जानकारी निम्न ईमेल आईडीः irp.ndt-	फेज 3, 116240700036889, नयी दिल 112150730025009, 5135, ओल्ड राजेन्ड		
(1) Diluted (₹)		0.03	0.01	0.02 0.07		10 m 10 m	.60) (15.64)	(55.97) (58.64)		tradehouse@gmail.com पर प्राप्त की जा सकती है	करोलबाग, 108920700039081, पहाड		The state of the s
Note:		- 12 J.	3		7				अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।		108730730022188, पिरागढ़ी, 10864070		
1) The above is an extract of the det	ailed format of quar	rterlv/ annual fin	nancial results	filed with the stoo	ck exchanges	under Regulation	on 33 of the SEE	BI (Listing and Other	10. अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम	12.06.2022	नक्षर, 123410700039099, 9103		
Disclosure Requirements) Regu	ulations, 2015. Th	ne full format	of the quarte	erly/annual finan	cial results a	re available o	n the stock ex	xchanges websites,	तिथि		109680700024014, 1096807300110 कालकाजी, 111110730054086, उत्तर् दिल		
www.nseindia.com, www.bseindia	a.com and on the Co	ompany's webs	site, www.jindal	linfralogistics.cor	n.			04/	11. संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सुची जारी होने की तिथि	22.06.2022	124540730017384, 7697, मॉडल टाउन		
							Amare	-/Sd endra Kumar Sinha	12. अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने :	27.06.2022	8654, 8690, 8709, 8714, 8726, 873		
Place : New Delhi								Vhole Time Director	की अंतिम तिथि		दिलली, त्रि नगर दिल्ली, 1213607300 107680730022211,)25325, पाश्चम् दा	क्षण, माहपालपुर,
Date : 27th May , 2022								DIN:08190565	13. संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची	07.07.2022	उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों क	गे निम्नलिखित का पालन व	त्रस्ना होगा:– इच्छक
					1			16	जारी होने की तिथि		बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/	- नीलामी के दिन नकद	जमा कराना होगा
0.		आरएर्स्	ोएल गिय	रटेक लिमि	टेड				14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव	27.06.2022	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए	 नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच 	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड
<u>୧</u> ୦ କ	जीकृत कार्यालय: 15	5वीं मंजिल, इरोन	स कॉरपोरेट टॉ	ॉवर, नेहरू प्लेस,	नई दिल्ली - 11	10019 (भारत)		RAUNAO	14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने	27.06.2022		 नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच 	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड
RACL	द्रर	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै	ॉवर, नेहरू प्लेस, त्र्क्स नंबर: 0120-	नई दिल्ली - 11 -4588513			EI RAUNAQ GEARS	14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि		(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपय अधिकृत अभिकारी	 नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच 	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड
RACL	दूर ईमेल: Inve	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 stor@racigea CIN: ।	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रे L34300DL198	ॉवर, नेहरू प्लेस, त्रक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136	नई दिल्ली - 11 •4588513 aclgeartech.•	com		EI RAUNAQ GEARS	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचन 1 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी),	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपय	 नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच 	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड
RACL	द्रर	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 stor@racigea CIN: ।	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रे L34300DL198	ॉवर, नेहरू प्लेस, त्रक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136	नई दिल्ली - 11 •4588513 aclgeartech.•	com		GEARS	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त 		(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.	'- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैथ पहच या 9072604049 पर संप	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड
RACL	दूर ईमेल: Inve	5वीं मंजिल, इरोज रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ी और वर्ष के लि	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 लेए स्टेंडअलोन	ॉवर, नेहरू प्लेस, त्रक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136	नई दिल्ली - 11 •4588513 aclgeartech.•	com वेत्तीय परिणामो	(ईपीएस को	होड़कर र लाख में)	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचन मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपय अधिकृत अधिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडिय	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैथ पहच वा 9072604049 पर संप ग लिमिटेड	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड
RACL	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमार्ह	5वीं मंजिल, इरोज रभाष नं.: 011-6 stor@racIgea CIN: 1 ो और वर्ष के लि कंसोलिर	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 लेए स्टेंडखलोन डेटेड	ॉवर, नेहरू प्लेस, त्रक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखेल	नई दिल्ली - 11 -4588513 raclgeartech. टेड अंकेद्वित वि	com वेत्तीय परिणामो स्टै	(ईपीएस को ंडअलोन	GEARS छोड़कर र लाख में)	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपन अधिकृत अधिकारी मणप्युत्म फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडिय (CIN: L15549DL	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैथ पहच वा 9072604049 पर संप वा लिमिटेड 1981PLC012918)	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड किं करें.
RACL _{Geortech} 31 मार्च, 2022	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमार्ह समाप्त	5वीं मंजिल, इरोज रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ो और वर्ष के लि कंसोलिव सुमाप्तू	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 सेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज्	ॉवर, नेहरू प्लेस, त्रक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. रेड अंकेक्षित वि सुमाप्तू	com वेत्तीय परिणामो स्टै सुमाप्तू	(ईपीएस को डअलोन वर्ष ्से आज	GEARS छोड़कर र लाख में) ज्र	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु, अमृत इंडिर (CIN: L15549DL पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैथ पहच या 9072604049 पर संप ग लिमिटेड 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट,	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड किं करें.
RACL	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमार्ह समाप्त तिमाही 31.03.2022 3	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ते और वर्ष के लि कंसोलिं समाप्त तिमाही त 31.03.2021	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022	ॉवर, नेहरू प्लेस, त्रक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत समाप्त पूर्व वर्ष 31.03.2021	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. रेड अंकेक्षित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022	com वेत्तीय परिणामें स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202	(ईपीएस को डअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202	GEARS छोड़कर र लाख में) ज हड़े 22 31.03.2021	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपन अधिकृत अधिकारी मणप्युत्म फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडि स (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैथ पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, tone: 011-45641903 1 Website: www.amr	जमा कराना होगा ज्ञना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. नारायणा,
RACL Geartech 31 मार्च, 2022 विवरण	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमार्ह समाप्त तिमाही 31.03.2022 3	5वीं मंजिल, इरोज रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ो और वर्ष के हि कंसोलिर समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित)	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र्व 134300DL198 तेए स्टेंडखलोव देटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित)	ॉवर, नेहरू प्लेस, कक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित)	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित)	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित)	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित)	GEARS छोड़कर र लाख में) ज रूड़े 22 31.03.2021 0) (अंकेक्षित)	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु, अमृत इंडिर (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैथ पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 1 Website: www.amr रभा की सूचना	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड वर्क करें. नारायणा, ritindialtd.in
RACL Geartech 31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमार्ह समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 7298.54	5वीं मंजिल, इरोज रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ो और वर्ष के लि केसोलिंट समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रे 134300DL198 वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेर्य से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेव 1 और कंसोलिडेव 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00	नई दिल्ली - 11 :4588513 :aclgeartech. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	com वेत्तीय परिणामें स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66	(ईपीएस को डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26	GEARS छोड़कर र लाख में) ज रूड़े 22 31.03.2021 1) (अंकेक्षित) 5 20773.00	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडिर (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैथ पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr 1911 की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा	जमा कराना होगा ज्ञना प्रमाण/पैन कार्ड तर्क करें. नारायणा, ritindialtd.in ादित करने के लिए अमृत
RACL Geartech 31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमार्ह समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 7298.54	5वीं मंजिल, इरोज रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ो और वर्ष के हि कंसोलिर समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित)	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र्व 134300DL198 तेए स्टेंडखलोव देटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित)	ॉवर, नेहरू प्लेस, कक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित)	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित)	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित)	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित)	GEARS छोड़कर र लाख में) ज रूड़े 22 31.03.2021 1) (अंकेक्षित) 5 20773.00	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडिर (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 19072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 100e: 011-45641903 1 Website: www.amr 14 निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्ट कार्यालय में बुधवार, 15 जून	जमा कराना होगा बना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in ादित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट न, 2022 को 11.00 बर्ज
RACL Geartech 31 मार्च, 2022 विवरण	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमार्ह समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 7298.54	5वीं मंजिल, इरोज रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ो और वर्ष के लि केसोलिंट समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रे 134300DL198 वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेर्य से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेव 1 और कंसोलिडेव 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00	नई दिल्ली - 11 :4588513 :aclgeartech. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	com वेत्तीय परिणामें स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66	(ईपीएस को डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26	GEARS छोड़कर र लाख में) ज रूड़े 22 31.03.2021 1) (अंकेक्षित) 5 20773.00	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगीः अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी,	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडि र (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैथ पहच वा 9072604049 पर संप 19072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr IWI की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा प्र) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून गई 2021-22 के वार्षिक रिपो	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. नारायणा, ritindialtd.in ादित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज ार्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय
RACL Geortech 31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पर्व अवधि के लिए शद्ध लाभ/	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 7298.54 714.38	5वीं मंजिल, इरोज रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ो और वर्ष के लि केसोलिंट समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रे 134300DL198 वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेए स्टेंडखलोन वेर्य से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेव 1 और कंसोलिडेव 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00	नई दिल्ली - 11 :4588513 :aclgeartech. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	com वेत्तीय परिणामें स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66	(ईपीएस को डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26	GEARS छोड़कर र लाख में) ज रूड़े समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 (अंकेक्षित) 5 20773.00 3012.89	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगीः अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स,	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपन अधिकृत अधिकारी मणप्युत्य फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडि स् (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच वा 9072604049 पर संप 19072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, tone: 011-45641903 1 Website: www.amr Ni की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in दित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज 1र्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं
RACL Geortech 31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पर्व अवधि के लिए शद्ध लाभ/	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 7298.54 714.38	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ो और वर्ष के लि केसोलिंट समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रे L34300DL198 तेए स्टेंडअलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेव 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उड अंकेक्षित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेक्षित) 7297.92 719.24	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26	GEARS छोड़कर र लाख में) ज रूड़े समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 (अंकेक्षित) 5 20773.00 3012.89	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगीः अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद-	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडिर (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है।	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा स्म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. nationalitationalitation nationalitatio nationalitation nationalitation nationalitation national
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 7298.54 714.38 714.38	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ते और वर्ष के लि कंसोलिंग समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उंड अंकेद्वित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेद्वित) 7297.92 719.24	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24 951.24	(ईपीएस को डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26	GEARS छोड़कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष psi 22 31.03.2021 0) (अंकेक्षित) 5 20773.00 5 3012.89 3012.89	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगीः अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अभिकारी मणप्युत्य फायनेंस लि. हेतु. उसमृत इंडि स् (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा स्म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. nationalitationalitation nationalitatio nationalitation nationalitation nationalitation national
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 7298.54 714.38 714.38	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ो और वर्ष के लि केसोलिंट समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रं L34300DL198 तेए स्टेंडअलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेव 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उड अंकेक्षित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेक्षित) 7297.92 719.24	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26	GEARS छोड़कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष कड़े 31.03.2021 (अंकेक्षित) 5 20773.00 3012.89 3012.89	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगीः अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणपुत्म फायर्नेस लि. हेतु. अमृत इंडि (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफल ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है।	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैश्व पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 100ne: 011-45641903 1 Website: www.amr 14 निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य गों को वित्त वर्ष 2021-22 के	जमा कराना होगा ग्रना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in गदित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण
RACL उ1 मार्च, 2022 विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद)	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 1 7298.54 714.38 714.38	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 ते और वर्ष के लि कंसोलिर समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रे L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उंड अंकेद्वित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेद्वित) 7297.92 719.24 719.24 483.74	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24 951.24 951.24	(ईपीएस को डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73	GEARS छोड़कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठ	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद– 121001 26.08.2022	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अभिकारी मणप्युत्य फायनेंस लि. हेतु. उसमृत इंडि स् (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr 1911 की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य गों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. nationation ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे व वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वालं
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 7298.54 714.38 714.38	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ते और वर्ष के लि कंसोलिंग समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उंड अंकेद्वित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेद्वित) 7297.92 719.24	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24 951.24	(ईपीएस को डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26	GEARS छोड़कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठ	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणपुत्म फायर्नेस लि. हेतु. अय्मृत इंडि (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफल ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक सि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 19072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, tone: 011-45641903 1 Website: www.amr मि निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा में निर्वा सूचना में को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति मे स्रएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज वर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वो (''रिमोट ई-वोटिंग'')
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 1 7298.54 714.38 714.38 490.93 402.18	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 ते और वर्ष के लि कंसोलिर समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com रे L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उंड अंकेद्वित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेद्वित) 7297.92 719.24 719.24 483.74	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24 951.24 951.24	(ईपीएस को डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73	GEARS छोड़कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठ	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अधिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु. अमृत इंडि र (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr 1981 PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr 1981 PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr 1983 निर्देश पा की सूचना भू निर्देश्ट व्यवसायों को निष्प पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य वा किमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्रिएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. nationation ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत रर, पीवीआर के निकट र, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज में की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं । सभी सदस्यों को उनवे व वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाले ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकर
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 1 7298.54 714.38 714.38 490.93 402.18	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ते और वर्ष के लि कंसोलिंग समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 726.89 819.92	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेद्वित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेद्वित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 400.11	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 817.28	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73	GEARS BIGEARS BIGEARS Image Colspan="2">Image Colspan="2">Image Colspan="2">Image Colspan="2">Image Colspan="2" Image	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप्य अधिकृत अभिकारी मणयुत्य फायर्नेस लि. हेतु. उसमृत इंडि (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को इ	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 19072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1000: 011-45641903 1 Website: www.amr रमा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा प्रम) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्रएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान ह	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. nationation ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत रर, पीवीआर के निकट र, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज में की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं । सभी सदस्यों को उनवे व वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाले ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकर
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिंटी शेयर पंजी	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 1 7298.54 714.38 714.38 490.93 490.93	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: I ते और वर्ष के रि कंसोलि समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 819.92 819.92	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89 1078.16	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18	नई दिल्ली - 11 4588513 *aclgeartech. रेड अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 400.11	com वेत्तीय परिणाम स्टै अग्रेग्रे अग्रेग्रेकित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 817.28 817.28	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष Single States Single States <	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद।	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अभिकारी मण्प्युत्म फाय-र्नेस लि. हेतु अप्रृत इंडि र (CIN: L15549DL पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को इ 2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 जून, 2022 को 9.00 3. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 14 जून, 2022 को 5.0	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr 19 निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे सप्रएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं ब सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण के वर्षार्रत करने वाल् ते (''रिमोट ई–वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकत बारा निष्पादित किया जाएगा
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिंटी शेयर पंजी	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 1 7298.54 714.38 714.38 490.93 490.93	5वीं मंजिल, इरोज़ रभाष नं.: 011-6 estor@raclgea CIN: 1 ते और वर्ष के लि कंसोलिंग समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 726.89 819.92	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेद्वित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेद्वित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 400.11	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 817.28	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 0 (अंकेक्वित) 5 20773.00 5 20773.00 6 3012.89 2338.12 2338.12 2385.60 1078.16	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी क नाम, पता तथा ई-मेल 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी धी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अभिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु अमृत इंडि र (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके इंमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को इ 2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 जून, 2022 को 5.00 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान वे	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, one: 011-45641903 I Website: www.amr 19 निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे सप्रएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।	जमा कराना होगा जना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं ब सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण के वर्षार्रत करने वाल् ते (''रिमोट ई–वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकत बारा निष्पादित किया जाएगा
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 490.93 1 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: I ते और वर्ष के रि कंसोलि समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 819.92 819.92	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89 1078.16	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18	नई दिल्ली - 11 4588513 *aclgeartech. रेड अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 400.11	com वेत्तीय परिणाम स्टै अग्रेग्रे अग्रेग्रेकित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 817.28 817.28	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष Single States Single States <	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैः irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन-121001, हरियाणा ईमेलः arungaj572@gmail.com	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अभिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु अम्रित द्रंडिय (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफल ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को इ 2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 जून, 2022 को 9.00 3. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 14 जून, 2022 के 5.0 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान के	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैश्व पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 I Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य वों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्पएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में बुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने	जमा कराना होगा ना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. it कं करें. it indialtd.in iदित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बजे iर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं I सभी सदस्यों को उनके के वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण के वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वालें ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकतं द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट-ऑफ तिथि 07
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विंटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पन्न में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 490.93 1 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: I ते और वर्ष के रि कंसोलि समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 819.92 819.92	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89 1078.16	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18	नई दिल्ली - 11 4588513 *aclgeartech. रेड अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 400.11	com वेत्तीय परिणाम स्टै अग्रेग्रे अग्रेग्रेकित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 817.28 817.28	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष Single States Single States <	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचन मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा ईमेलः arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अभिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु अमृत इंडि र (CIN: L15549DL) पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके इंमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को इ 2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 जून, 2022 को 5.00 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान वे	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैश्व पहच या 9072604049 पर संप 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1000: 011-45641903 1 Website: www.amr 1711 की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य बों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान ह बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड क्वं करें. ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट–ऑफ तिथि 02 करते हैं तथा कम्पनी क
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए)	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 490.93 1 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: I ते और वर्ष के रि कंसोलि समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 819.92 819.92	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89 1078.16	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18	नई दिल्ली - 11 4588513 *aclgeartech. रेड अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 400.11	com वेत्तीय परिणाम स्टै अग्रेग्रे अग्रेग्रेकित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 817.28 817.28	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष Single States Single States <	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचन मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी क नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा ईमेलः arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स,	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अभिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1000: 011-45641903 1 Website: www.amr मों निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून याई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने 1द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड क्वं करें. ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट–ऑफ तिथि 02 करते हैं तथा कम्पनी क
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए)	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 490.93 1 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: I ते और वर्ष के रि कंसोलि समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 819.92 819.92	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र L34300DL198 तेए स्टेंडखलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89 1078.16	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18	नई दिल्ली - 11 4588513 *aclgeartech. रेड अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 400.11	com वेत्तीय परिणाम स्टै अग्रेग्रे अग्रेग्रेकित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 817.28 817.28	(ईपीएस को ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष Single States Single States <	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचन मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जम करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी क नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद,	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अभिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैश्व पहच या 9072604049 पर संप 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1000: 011-45641903 1 Website: www.amr 1711 की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने 1द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं।	जमा कराना होगा ना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज 12 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते शेयर धारित करने वाल् ते शेयर धारित करने वाल् दे रो फियादित किया जाएगा हेतु कट–ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदी से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिटों शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पन्न में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 490.93 1 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1 4.55	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: CIN: 1 और वर्ष के रि कंसोलिर समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र L34300DL198 तेए स्टेंडर्अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89 1078.16 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 *aclgeartech. रेड अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 951.24 1078.16 9715.21	(ईपीएस को) डअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 1078.16 12061.93 22.21	GEARS BIS कर र लाख में) ज ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 0 (अंकेक्वित) 5 20773.00 6 20773.00 3012.89 3012.89 2338.12 2338.12 1078.16 9715.21 21.69 21.69	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जम करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 12103	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अभिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, fone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून याई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्ध बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने 1द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं।	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड क्वे करें. ritindialtd.in दित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज 1र्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण दे शेयर धारित करने वाल् 1 (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट–ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदी से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिटों शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पन्न में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 490.93 1 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1 4.55	5वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: CIN: 1 और वर्ष के रि कंसोलिर समाप्त तिमाही त 31.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com र L34300DL198 तेए स्टेंडर्अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89 1078.16 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिखे 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 *aclgeartech. रेड अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 951.24 1078.16 9715.21	(ईपीएस को) डअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 1078.16 12061.93 22.21	GEARS BIS कर र लाख में) ज ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 0 (अंकेक्वित) 5 20773.00 6 20773.00 3012.89 3012.89 2338.12 2338.12 1078.16 9715.21 21.69 21.69	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाल एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद । पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अफिकारी मणयुरम फायनेंस लि. हेतु अप्रमृत इंडि र (CIN: L15549DL पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी सेन मई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com यार्थिक आम स् एतद् हारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेष हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को इ 2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 जून, 2022 को 9.00 3. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 14 जून, 2022 को 9.00 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान वे जून, 2022 है। 5. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना में प्रेषण के ब सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 07 जून, अनुरोध भेजकर लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) उक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल हारा मतद हारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद : ख) एजीएम में मत पत्र हारा मतदान की सुविधा उपल	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैश्व पहच या 9072604049 पर संप 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1000: 011-45641903 1 Website: www.amr 1711 की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र तलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 वजे पूर्वा. में शुरू होगी। 10 वजे पूर्वा. में शुरू होगी। 11 के लिए पात्रता सुनिश्चित करने 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 11 के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी।	जमा कराना होगा ना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज 12 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वार्ल 1 (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य 1 अनुमति नहीं दी जाएगी
31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षित एप्नर्मुल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मृल तथा तरल नो उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लि	दू र ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई तमाइ 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 490.93 1 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1 12062.67 1 12062.67 3 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1 12062.67 3 402.18 1 1078.16 1 12062.67 3 402.18 1 1078.16 1 12062.67 3 1078.16 1 12062.67 3 1078 1 1078.16 1 1078.16 1 1078 1	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: CIN: 1 और वर्ष के रि कंसोलि कंसोलि तिमाही त 103.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 1078.16 9724.78 1078.16 9724.78	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै srtech.com र 134300DL198 तेए स्टेंडर्अलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 2390.79 2337.89 1078.16 12062.67 1078.16 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोसिसे 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 *aclgeartech. रेड अंकेदित वि समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम स्टें समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 951.24 1078.16 9715.21 6.71	(ईपीएस को) डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21	GEARS BIGEARS BIGEARS BIGEARS BIGEARS BIGEARS STATS TICAL STATS STATS <td> 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं </td> <td>प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की जा सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, प्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, प्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001</td> <td>(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अफ़िकारी मणयुत्स फायर्मेस लि. हेतु. अप्रित होडिंग एCIN: L15549DL पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी से नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् हारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नरायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेप हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को झ् 2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 जून, 2022 को 5.00 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान वे जून, 2022 है। 5. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना में प्रेषण के ब सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 07 जून, अनुरोध भेजकर लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) उक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल हारा मतद हारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद ' ख) एजीएम में मत पत्र हारा मतदान की सुविधा उपल ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग हा</td> <td>- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 19072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, fone: 011-45641903 1 Website: www.amr मों निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून या हिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (से की भौतिक प्रतियां अन्य वों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरिय काइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरिय काइण्ड पद्धति में (से क्यं की वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरिय काइण्ड पद्धति में (से को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरिय काइलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरिय काइण्ड पद्धति में (संक्ते हैं । व के पूर्वा. में बंद होगी। के लिए पात्रता सुनिश्चित करने रक्ते हैं । व के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। र अपना मतदान कर दिये हों</td> <td>जमा कराना होगा ना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज 12 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वार्ल 1 (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य 1 अनुमति नहीं दी जाएगी</td>	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की जा सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, प्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, प्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अफ़िकारी मणयुत्स फायर्मेस लि. हेतु. अप्रित होडिंग एCIN: L15549DL पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी से नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् हारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नरायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेप हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को झ् 2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 जून, 2022 को 5.00 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान वे जून, 2022 है। 5. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना में प्रेषण के ब सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 07 जून, अनुरोध भेजकर लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) उक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल हारा मतद हारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद ' ख) एजीएम में मत पत्र हारा मतदान की सुविधा उपल ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग हा	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 19072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, fone: 011-45641903 1 Website: www.amr मों निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून या हिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (से की भौतिक प्रतियां अन्य वों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरिय काइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरिय काइण्ड पद्धति में (से क्यं की वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरिय काइण्ड पद्धति में (से को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरिय काइलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरिय काइण्ड पद्धति में (संक्ते हैं । व के पूर्वा. में बंद होगी। के लिए पात्रता सुनिश्चित करने रक्ते हैं । व के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। र अपना मतदान कर दिये हों	जमा कराना होगा ना प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज 12 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वार्ल 1 (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य 1 अनुमति नहीं दी जाएगी
विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पन्न में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल नोट्स : 1 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लि प्रारूप का सार है। अकेक्षित स्टैप्र तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 400.93 1 400.93 1 1078.16 1 12062.67 1 1078.16 1 12062.67 1 402.18 1 40.18 1 40	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 ते और वर्ष के लि कंसोलिंग कंसोलिंग के के लिमाही तिमाही 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74 6.74 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै artech.com दे L34300DL198 तेए स्टेंडअलोन डेटेड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्वित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 2337.89 1078.16 12062.67 2337.89	ॉवर, नेहरू प्लेस, त्रक्स नंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 1 और कंसोलिडेत 20773.00 3024.11 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78 21.79	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech.4 टेड अंकेदित ति समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम स्टें समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 1078.16 9715.21 6.71 CFD/FAC/62/2 उएलॉन एवं कंस् नी को वेबसाईट	(ईपीएस को) डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 (अंकेक्षित) 20773.00 3012.89 2338.12 2385.60 1078.16 39715.21 21.69 21.69 21.69 दार्टा के अंतर्गत aclgeartech.com	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती हैं: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरखंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, प्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, प्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 वस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अफ़िकारी मणयुत्स फायर्नेस लि. हेतु. अप्रित होडिंग एCIN: L15549DL पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी से नई दिल्ली–110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् हारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नारायणा, नई दिल्ली–110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट–ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेप हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को इ 2. रिमोट ई–वोटिंग रयिवार, 12 जून, 2022 को 9.00 3. रिमोट ई–वोटिंग पविवार, 12 जून, 2022 को 9.00 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान के जून, 2022 है। 5. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना में प्रेषण के ब सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 07 जून, अनुरोध भेजकर लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सदस्याण ध्यान रखें कि: क) उक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल हारा मतद हारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद ख) एजीएम में मत पत्र हारा मतदान की सुविधा उपल ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग हा हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में पुनः मतदान के लिए 3	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैश्व पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, tone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य वों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्रएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में बंद होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने वद कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय व इन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे।	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड क्वे करें. ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बजे वर की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय रंज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाले क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाले क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण हे त्वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण क दी जरपोर्ट किया जाएगा करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य 1 अनुमति नहीं दी जाएगी वे भी एजीएम में शामिल
31 मार्च, 2022 विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आप (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिंटी शेयर पूंजी आरक्षित पुनर्म्रल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल नोट्स : 1 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लि प्रारूप का सार है। अंकेक्षित स्टैप्य तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट 2 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाई	दूर ईमेल: Inve को समाप्त तिमाही तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्षित) 1 7298.54 1 714.38 1 714.38 1 714.38 1 490.93 1 402.18 1 1078.16 1 12062.67 1 1078.16 1 12062.67 1 402.18 1 40.18 1 40	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: CIN: 1 और वर्ष के लि कंसोलिं कंसोलिं समाप्त तिमाही 71.03.2021 (अंकेक्षित) 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 6.74 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै srtech.com र 134300DL198 तेए स्टेंड अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 2330.79 2337.89 1078.16 12062.67 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क् मंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्वित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित ति समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 1078.16 9715.21 1078.16 9715.21 6.71 CFD/FAC/62/2 उएलॉन एवं कंस् नी को वेबसाईट सारांश की *सीमि	(ईपीएस को 1 ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21 2016 तिथि 5 जुल गेलिडेटेड वित्तीय अर्थात www.ra	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 (अंकेक्षित) 5 20773.00 5 20773.00 6 3012.89 6 3012.89 6 3012.89 6 3012.89 6 2338.12 7 2385.60 1078.16 9715.21 21.69 21.69 वाई, 2016 के अंतर्गत प्र परिणामों के विस्तृत क्ष 421 द्वारा की गई तथा	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरखंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी धी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद । पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 वेस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है । 28.05.2022 कृते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अफ़िकारी मणयुत्स फायर्मेस लि. हेतु. अप्रित होडिंग एCIN: L15549DL पंजी. कार्या. 202, 2, कम्युनिटी से नई दिल्ली-110028, Ph Emali: amritindialtd@gmail.com वार्षिक आम स् एतद् हारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना इंडिया लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम सभा (एजीए नरायणा, नई दिल्ली-110028 में कम्पनी के पंजीकृत पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम सूचना तथा एफव ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आ एजीएम सूचना तथा एफवाई 2021-22 के वार्षिक रि पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति में भेजी गई है। कम्पनी ने 26 मई, 2022 को स्वीकृत पद्धति में सदस्य पूरा कर लिया है। 07 जून, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सीडीए के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्दिष्ट साधारण/ विशेप हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. एजीएम सूचना में वर्णित साधारण/ विशेष व्यवसायों को झ् 2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 12 जून, 2022 को 5.00 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान वे जून, 2022 है। 5. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना में प्रेषण के ब सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 07 जून, अनुरोध भेजकर लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) उक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल हारा मतद हारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद ' ख) एजीएम में मत पत्र हारा मतदान की सुविधा उपल ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग हा	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, 1000: 011-45641903 1 Website: www.amr 1711 की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 वजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 वजे पूर्वा. में शुरू होगी। 10 वजे पूर्वा. में शुरू होगी। 10 वजे पूर्वा. में शुरू होगी। 11 के लिए पात्रता सुनिश्चित करने 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 11 के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. fitindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वार्ल के वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वार्ल ते हो कट - ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य अनुमति नहीं दी जाएगी वे भी एजीएम में शामिल द्वारा प्रबंधित लाभ भोर्ग
31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिटी शेयर पूंजी आदक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मुल तथा तरल नोट्स : 1 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीपसई लि प्रारूप का सार है। अकेक्षित स्टैप्प तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट 2 31 मार्च, 2022 को आयोजित उनक	दू र ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 714.38 714.38 714.38 490.93 402.18 402.18 1078.16 12062.67 1078.16 12062.67 402.18 402.18	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 वे और वर्ष के लि कंसोलिंग के के लिमाही तिमाही तिमाही 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74 1078.16 9724.78 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै srtech.com र 134300DL198 तेए स्टेंड अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 2330.79 2337.89 1078.16 12062.67 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क् मंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्वित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित ति समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम स्टै समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्षित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 1078.16 9715.21 1078.16 9715.21 6.71 CFD/FAC/62/2 उएलॉन एवं कंस् नी को वेबसाईट सारांश की *सीमि	(ईपीएस को 1 ंडअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21 2016 तिथि 5 जुल गेलिडेटेड वित्तीय अर्थात www.ra	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 (अंकेक्षित) 5 20773.00 5 20773.00 6 3012.89 6 3012.89 6 3012.89 6 3012.89 6 2338.12 7 2385.60 1078.16 9715.21 21.69 21.69 वाई, 2016 के अंतर्गत प्र परिणामों के विस्तृत क्ष 421 द्वारा की गई तथा	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरखंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी धी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद । पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, प्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 वस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है । 28.05.2022 कृते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./ -	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अभिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैश्व पहच वा 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य वीं को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्रएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्ध बजे पूर्वा. में बुंद होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने वद कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड क्वे करें. ido के पास पंजीकृत हैं ido के पास पंजीकृत के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य ido की एजीएम में शामिल ido की एजीएम में शामिल ido की एजीएम में शामिल ido की एजीएम में शामिल ido की एजीएम में शामिल
31 मार्च, 2022 विवरण विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आप (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिंटी शेयर पूंजी आरक्षित पुनर्म्रल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल नोट्स : 1 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लि प्रारूप का सार है। अंकेक्षित स्टैप्य तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट 2 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाई	दू र ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 714.38 714.38 714.38 490.93 402.18 402.18 1078.16 12062.67 1078.16 12062.67 402.18 402.18	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 वे और वर्ष के लि कंसोलिंग के के लिमाही तिमाही तिमाही 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74 1078.16 9724.78 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै srtech.com र 134300DL198 तेए स्टेंड अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 2330.79 2337.89 1078.16 12062.67 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क् मंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्वित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित ति समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम र् देतीय परिणाम र र र र समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 0951.24 817.28 817.28 817.28 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21	(ईपीएस को 1 डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21 2016 तिथि 5 जुल ोलिडेटेड वित्तीय 32105.26	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 (अंकेक्षित) 5 20773.00 5 20773.00 6 3012.89 6 3012.89 6 2338.12 7 2385.60 1078.16 9715.21 21.69 21.69 ताई, 2016 के अंतर्गत प् 21.69 मंदी द्वारा की गई तथा क वित्तीय परिणामों	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरखंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी धी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद । पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 वेस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है । 28.05.2022 कृते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साध लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपर अधिकृत अभिकारी मणपुरम फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 1 Website: www.amr भा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा एम) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य से को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्रएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक स् लेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने 1द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों प्रधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. it indialtd.in It indialtd.in It a करें के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बजे It की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे 5 वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वार्ल 1 (''रिमोट ई–वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट–ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी नथा संस्य कर दी जाएगी नथा संदर्भ्य कर दी जाएगी नथा संदर्भ्य कर दी जाएगी नथा संतर्भ्य कर दी जाएगी नथा संदर्भ्य कर दी जाएगी नथा संतर्भ्य के भी एजीएम में शामिल
31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्रिटी शेयर पूंजी आदक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मुल तथा तरल नोट्स : 1 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीपसई लि प्रारूप का सार है। अकेक्षित स्टैप्प तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट 2 31 मार्च, 2022 को आयोजित उनक	दू र ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 714.38 714.38 714.38 490.93 402.18 402.18 1078.16 12062.67 1078.16 12062.67 402.18 402.18	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 वे और वर्ष के लि कंसोलिंग के के लिमाही तिमाही तिमाही 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74 1078.16 9724.78 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै srtech.com र 134300DL198 तेए स्टेंड अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 2330.79 2337.89 1078.16 12062.67 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क् मंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्वित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित ति समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम र् देतीय परिणाम र र र र समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 0951.24 817.28 817.28 817.28 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21	(ईपीएस को 1 डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21 2016 तिथि 5 जुल गेलिडेटेड वित्तीय 321.01 22.21	GEARS BIGEARS BIGEARS BIGEARS BIGEARS TIMES TE CINES TIMES TE CINES </td <td> 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव गानकारी आपत करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि </td> <td>प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की जा सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 वेस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022 कृत्ते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./– अरुफण गजवानी प्रस्ताव कर्मी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724</td> <td>(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साध लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अभिकारी मणजुरूष फायनेंस लि. हेतु.</td> <td>- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, fone: 011-45641903 1 Website: www.amr मा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (से की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (संक्ते पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की व्य कराई जाएगी। त राजिटर या डिपॉजिटरीज के राजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा ://www.evotingindia.cu किसी प्रकार की पूछताछ के</td> <td>जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड क्वे करें. ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् क दार्य निष्पदित किया जाएगा हेतु कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी तथा कम्पनी के का कर तथा कम्पनी की</td>	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव गानकारी आपत करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की जा सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 वेस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022 कृत्ते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./– अरुफण गजवानी प्रस्ताव कर्मी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साध लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप अधिकृत अभिकारी मणजुरूष फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, fone: 011-45641903 1 Website: www.amr मा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (से की भौतिक प्रतियां अन्य तों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (सएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल व व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र या डिमैटेरियलाइण्ड पद्धति में (संक्ते पूर्वा. में शुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की व्य कराई जाएगी। त राजिटर या डिपॉजिटरीज के राजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा ://www.evotingindia.cu किसी प्रकार की पूछताछ के	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड क्वे करें. ritindialtd.in बित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् क दार्य निष्पदित किया जाएगा हेतु कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी तथा कम्पनी के का कर तथा कम्पनी की
31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्म्लयांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर एसम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल नोट्स : 1 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एकसचैंज अर्थात बीएसई लि प्रारूप का सार है। अकेक्षित स्टैप्प तथा स्टॉक एकसचैंज अर्थात् बी बेबसाईट 2 अर्थ के वेबसाईट द अग साप्त तिमाही 27 मई, 2022 को समाप्त तिमाही 27 मई, 2022 को आयोजित उनक की कंपनी के सांविधिक लेखा-परी	दू र ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 714.38 714.38 714.38 490.93 402.18 402.18 1078.16 12062.67 1078.16 12062.67 402.18 402.18	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 वे और वर्ष के लि कंसोलिंग के के लिमाही तिमाही तिमाही 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74 1078.16 9724.78 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै srtech.com र 134300DL198 तेए स्टेंड अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 2330.79 2337.89 1078.16 12062.67 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क् मंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्वित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित ति समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम र् देतीय परिणाम र र र र समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 0951.24 817.28 817.28 817.28 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21	(ईपीएस को 1 डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21 2016 तिथि 5 जुल गेलिडेटेड वित्तीय 321.01 22.21	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 (अकेक्वित) 20773.00 3012.89 2338.12 2338.12 21.69 21.69 41078.16 21.69 421.69 <td>14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि</td> <td>प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की जा सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 विस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022 कृत्ते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./– अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724</td> <td>(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप आधिकृत अधिकारी मणपुरूष फायनेंस लि. हेतु.</td> <td>- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य गों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्पएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र स्वेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में बुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने या द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा ://www.evotingindia.ca</td> <td>जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में होत् कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी तथा कम्पन</td>	14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की जा सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 विस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022 कृत्ते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./– अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप आधिकृत अधिकारी मणपुरूष फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य गों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्पएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र स्वेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में बुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने या द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा ://www.evotingindia.ca	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. ritindialtd.in बिंत करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में होत् कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी तथा कम्पन
31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्म्रल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर पूंजी आय प्रति शेयर एसम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल नोट्स : 1 उपरोक्त विवरण सेबी (सचीयन दा सटॉक एक्सचैंज अर्थात बीप्सई लि प्रारूप का सार है। अंकेक्षित स्टेप्य तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीप्सई लि प्रारूप का सार है। अंकेक्षित स्टेप्य तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बी बे साईट 2 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमार्ह 27 मई, 2022 को आयोजित उनक की कंपनी के सांविधिक लेखा-परी स्थान: नोएडा स्थान: नोएडा	दू र ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 714.38 714.38 714.38 490.93 402.18 402.18 1078.16 12062.67 1078.16 12062.67 402.18 402.18	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 वे और वर्ष के लि कंसोलिंग के के लिमाही तिमाही तिमाही 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74 1078.16 9724.78 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै srtech.com र 134300DL198 तेए स्टेंड अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 2330.79 2337.89 1078.16 12062.67 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क् मंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्वित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित ति समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम र् देतीय परिणाम र र र र समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 0951.24 817.28 817.28 817.28 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21	(ईपीएस को 1 डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21 2016 तिथि 5 जुल ोलिडेटेड वित्तीय 22.21	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष STOR COLSPICATION STOR COLSPICATION </td <td> 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि 24. प्रतीय पता का बी-572, सैनिक कॉलो </td> <td>प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), µूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी धी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 बिस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022 छत्ते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./- अरुफण गजवानी प्रस्ताव कर्मी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724 इंवेट लिमिटेड (एनडीटीटीएचपीएल) के मामले में। नी, सेक्टर-49, फरीदाबाद, पिन-121001, हरियाणा</td> <td>(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप आधिकृत अधिकारी मण्यपुल्प फायनेंस लि. हेतु.</td> <td>- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य गों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्पएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र स्वेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में बुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने या द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा ://www.evotingindia.ca</td> <td>जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. it indialtd.in दित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते शेयर धारित करने वाल् ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी का सत्य कर दी जाएगी का का स्वर कर दी जाएगी का का स्वर कर दी का का</td>	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि 24. प्रतीय पता का बी-572, सैनिक कॉलो 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), µूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की ज सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी धी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद। पेन-121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 बिस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022 छत्ते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./- अरुफण गजवानी प्रस्ताव कर्मी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724 इंवेट लिमिटेड (एनडीटीटीएचपीएल) के मामले में। नी, सेक्टर-49, फरीदाबाद, पिन-121001, हरियाणा	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप आधिकृत अधिकारी मण्यपुल्प फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य गों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्पएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र स्वेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में बुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने या द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा ://www.evotingindia.ca	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. it indialtd.in दित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज हे की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 'ज के पास पंजीकृत हैं सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते शेयर धारित करने वाल् ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते द्वारा निष्पादित किया जाएगा हेतु कट-ऑफ तिथि 07 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी का सत्य कर दी जाएगी का का स्वर कर दी जाएगी का का स्वर कर दी का
31 मार्च, 2022 विवरण परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानी) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्म्ल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर एंजी आपक्षित (पुनर्म्ल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल नो उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एकसचैंज अर्थात बीएसई लि प्रारूप का सार है। अकेक्वित स्टैप्प तथा स्टॉक एकसचैंज अर्थात् बी बे साईट 2 अपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एकसचैंज अर्थात बी बे साईट य उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दा स्टॉक एकसचैंज अर्थात बी साएत तिमाही 27 मई, 2022 को समाप्त तिमाही 27 मई, 2022 को आयोजित उनक की कंपनी के सांविधिक लेखा-परी	दू र ईमेल: Inve को समाप्त तिमाई समाप्त तिमाही 31.03.2022 3 (अंकेक्तित) 1 7298.54 714.38 714.38 714.38 490.93 402.18 402.18 1078.16 12062.67 1078.16 12062.67 402.18 402.18	5 वीं मंजिल, इरो रभाष नं.: 011-6 estor@racigea CIN: 1 वे और वर्ष के लि कंसोलिंग के के लिमाही तिमाही तिमाही 6898.66 954.70 954.70 954.70 954.70 726.89 819.92 819.92 6.74 1078.16 9724.78 6.74	स कॉरपोरेट टॉ 66155129 फै srtech.com र 134300DL198 तेए स्टेंड अलोन डेटेंड वर्ष से आज तक के आंकड़े 31.03.2022 (अंकेक्षित) 27509.88 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 3291.31 2330.79 2337.89 1078.16 12062.67 12062.67	ॉवर, नेहरू प्लेस, क् मंबर: 0120- वेबसाइट: www.r 83PLC016136 1 और कंसोलिडेत 31.03.2021 (अंकेक्वित) 20773.00 3024.11 3024.11 3024.11 2349.02 2397.18 1078.16 9724.78 1078.16 9724.78	नई दिल्ली - 11 4588513 aclgeartech. उ अंकेदित ति समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेदित) 7297.92 719.24 719.24 483.74 483.74 400.11 1078.16 12061.93 1078.16 12061.93	com वेत्तीय परिणाम र् देतीय परिणाम र र र र समाप्त तिमाही 31.03.202 (अंकेक्वित) 6898.66 951.24 951.24 951.24 0951.24 817.28 817.28 817.28 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21 0715.21	(ईपीएस को 1 डिअलोन वर्ष से आज तक के आंक 1 31.03.202 (अंकेक्षित) 27509.26 3295.26 3295.26 3295.26 2394.73 2346.71 1078.16 12061.93 22.21 2016 तिथि 5 जुल ोलिडेटेड वित्तीय 22.21	GEARS BIS कर र लाख में) ज समाप्त पूर्व वर्ष 22 31.03.2021 (अकेक्वित) 20773.00 3012.89 2338.12 2338.12 21.69 21.69 41078.16 21.69 421.69 <td> 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि 24. प्रतीय पता का बी-572, सैनिक कॉलो </td> <td>प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की जा सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 विस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022 कृत्ते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./– अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724</td> <td>(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप आधिकृत अधिकारी मणपुरूष फायनेंस लि. हेतु.</td> <td>- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य गों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्पएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र स्वेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में बुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने या द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा ://www.evotingindia.ca</td> <td>जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. it indialtd.in दित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज 12 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 7 करे पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते शेयर धारित करने वाल् ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते होतु कट-ऑफ तिथि 02 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी तथा स्वर्य</td>	 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि 15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि 17. प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या 20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि 24. प्रतीय पता का बी-572, सैनिक कॉलो 	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना मेमोरेण्डम (आईएम) प्रस्ताव कर्मी से निम्न ईमेल आईडी द्वारा प्राप्त की जा सकती है: irp.ndttradehouse@gmail.com आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा आईएम दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के अंतर्गत गोपनीयता की अंडरटैकिंग देने के बाद प्राप्त की जाएगी। 27.07.2022 प्रस्ताव योजना मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर जमा की जाएगी: अरुण गजवानी एनडीटीटीएचपीएल-कॉर्पोरेट ऋणधारक के प्रस्ताव कर्मी, टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 26.08.2022 अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी बी–572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद। पेन–121001, हरियाणा ईमेल: arungaj572@gmail.com अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी टावर 3, फ्लैट 503, जिऑन लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 48, निकट बडकल लेक क्रॉसिंग, फरीदाबाद- 121001 विस्तृत जानकारी अधोलिखित ईमेल आईडी: ईमेल: irp.ndttradehouse@gmail.com के द्वारा प्रस्ताव कर्मी से प्राप्त की जा सकती है। 28.05.2022 कृत्ते, एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./– अरुण गजवानी प्रस्ताव कर्मी IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724	(असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाए साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृप आधिकृत अधिकारी मणपुरूष फायनेंस लि. हेतु.	- नीलामी के दिन नकद गा). बोलीकर्ता को वैध पहच या 9072604049 पर संप 1981PLC012918) टर, पीवीआर के निकट, oone: 011-45641903 1 Website: www.amr में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पा (म) 202, 2, कम्युनिटी सेन्द कार्यालय में बुधवार, 15 जून वाई 2021-22 के वार्षिक रिपो इडी कम्पनी/ आरटीए/ डीपी पोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य गों को वित्त वर्ष 2021-22 के या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति मे स्पएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणार्ल वव्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक र स्वेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्व बजे पूर्वा. में बुरू होगी। 0 बजे पूर्वा. में बंद होगी। 5 लिए पात्रता सुनिश्चित करने या द कम्पनी का शेयर अर्जित व 2022 को शेयर धारित करते सकते हैं। 1न के लिए ई-वोटिंग निष्क्रिय क उन्हें उसमें बाद में परिवर्तन की ब्ध कराई जाएगी। रा अपना मतदान कर दिये हों मधिकृत नहीं होंगे। के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के साथ ही साथ मत-पत्र द्वारा ://www.evotingindia.ca	जमा कराना होगा जमा कराना होगा जमा प्रमाण/पैन कार्ड कं करें. it indialtd.in दित करने के लिए अमृत टर, पीवीआर के निकट रर, पीवीआर के निकट त, 2022 को 11.00 बर्ज 12 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिय 7 करे पास पंजीकृत हैं 1 सभी सदस्यों को उनवे क वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते शेयर धारित करने वाल् ते (''रिमोट ई-वोटिंग'') रूप से मतदान कर सकते वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण में शेयर धारित करने वाल् ते होतु कट-ऑफ तिथि 02 करते हैं तथा कम्पनी क ते हैं, वे आरटीए के पास कर दी जाएगी तथा सदस्य कर दी जाएगी तथा स्वर्य